

## Class 1

### विषय हिंदी

#### अध्याय 14 अपनी कार

##### बातों - बातों में

1. एक से 10 तक की गिनती हिंदी में लिखें ।

उत्तर - एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस ।

( नोट - पांच में चन्द्र बिंदु की मात्रा लगाएं।)

2. नीचे कुछ यातायात के साधनों पशुओं और पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इसमें कितने पहिए और किस के कितने पैर होते हैं ?

उत्तर - साइकिल - दो, ऑटो - तीन , रिक्शा - तीन , बस - छह , स्कूटी - दो, बंदर - चार,  
बिल्ली - चार, गाय- चार, मोर - दो, तोता - दो ।

##### कलम की सवारी

1. बॉक्स में दिए गए चित्र जी ने सही संख्या पर गोला बनाएं

उत्तर -   

तीन (चार) पांच चार (पांच) छह (तीन) चार पांच

 □ □ □

चार पांच (छह) दो (एक) चार तीन (दो) एक

2. अगली संख्या क्या होगी ?

उत्तर - एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ।

3 . इन प्रश्नों के उत्तर दें ।

1. काका क्या लाए ?

उत्तर - एक कार ।

2. कार में कितने पहिए होते हैं ?

उत्तर - कार में चार पहिए होते हैं ।

3. उन लोगों ने कितने गोलगप्पे खाएँ ?

उत्तर - छह

4. उन लोगों ने कितने गिलास पानी पीया ?

उत्तर - आठ

5. कितने बजे वे घर को आये ?

उत्तर - नौ बजे ।

3. दी गई कहानी पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने दीवार पर एक लंबी- सी लकीर खींच दी और कहा, “जो भी इसे छोटा कर देगा उसे इनाम में 10 हीरे के हार मिलेंगे । लेकिन दो शर्तें हैं पहली कि उसे मिटाना नहीं है और दूसरी शर्त है कि उसे बढ़ाना नहीं है ।“ दरबार के सभी लोग परेशान हो गए की लकीर को कैसे छोटा किया जाए इतने में बीरबल सामने आए और राजा की खींची लकीर के ठीक नीचे दूसरे लकीर खींच दी । उसकी खींची लकीर राजा की लकीर से लंबी थी । इस तरह राजा की लकीर बिना मिटाए व बढ़ाए छोटी हो गई । बीरबल की चतुराई देखकर लाल बादशाह बहुत खुश हुए।

क . बादशाह अकबर ने दीवार पर कितनी लकीरें खींची थी संख्या शब्दों में लिखें ।

उत्तर - एक लकीर ।

ख. बादशाह अकबर ने कितनी शर्तें रखी थी संख्या शब्दों में लिखें।

उत्तर - दो शर्तें ।

ग. बादशाह अकबर ने इनाम में कितने हीरे के हार देने की बात कही ? संख्या शब्दों में लिखें ।

उत्तर - दस हीरे के हार ।

बार्ते भाषा की

1. दिए गए चित्र को देखकर वाक्य पूरा करें ।

उत्तर - कल हम एक उद्यान में गए । वहां हमने कुछ बंदर देखे । पेड़ पर लगा झूला देखा । दो-तीन बच्चे उन झूले पर झूलने का मजा ले रहे थे । पांच - छह बच्चे मिलकर पकड़म - पकड़ाई का खेल खेल रहे थे । हमने भी वहां खूब सारे खेल खेले । सात बजे हम घर लौट आए आठ से नौ बजे तक हमने पढ़ाई की । फिर खाना खाया दस बजे सोने चले गए । इस तरह पूरा दिन बड़े मजे से बीता ।

2. अलग-अलग मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाएं ।

शब्द

नए शब्द

क	रख	रखी रेखा राख
ख	कम	काम कमी कमाई
ग	बल	बाल बैल बाली
घ	चल	चाल चली चेला
ङ.	कल	काल केला काला

धन्यवाद ।